



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 273 राँची, गुरुवार,

28 मार्च, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

27 मार्च, 2019

संख्या-5/आरोप-1-173/2017-1479 (HRMS)-- श्री अभय कुमार झा, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला-सहरसा, बिहार), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा के विरुद्ध दिनांक 14.08.2017 को अनधिकृत रूप से मुख्यालय से बाहर रहने एवं भ्रामक स्पष्टीकरण समर्पित करने संबंधी आरोप उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक-1114/स्था०, दिनांक 06.11.2017 द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-11788, दिनांक 01.12.2017 द्वारा उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से श्री झा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रपत्र-‘क’ में गठित कर साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक-1315/स्था०, दिनांक 30.12.2017 द्वारा श्री झा के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री झा के विरुद्ध दिनांक 14.08.2017 को बहरागोड़ा अंचल क्षेत्र में घटित भीषण सड़क दुर्घटना के उपरांत अफरा-तफरी एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने एवं उनकी खोज करने पर पूर्वानुमति के बिना मुख्यालय से बाहर रहने, चौकीदारों का वेतन भुगतान लम्बित रखने एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरतने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-618, दिनांक 19.01.2018 द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके द्वारा पत्रांक-66, दिनांक 07.02.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री झा के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3481, दिनांक 24.05.2018 द्वारा उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक-505/स्था०, दिनांक 15.06.2018 द्वारा श्री झा के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री झा के स्पष्टीकरण को " स्वीकार योग्य नहीं " प्रतिवेदित किया गया है।

श्री झा के विरुद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के मंतव्य समीक्षोपरांत श्री अभय कुमार झा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा के विरुद्ध i सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत 'निन्दन' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

| Sr No. | Employee Name G.P.F. No. | Decision of the Competent authority |
|--------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ABHAY KUMAR JHA JHK/JAS/272 | श्री अभय कुमार झा, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा के विरुद्ध सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत 'निन्दन' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
